

प्रेस विज्ञप्ति

श्री पदम लाल नेगी और श्री अजय यादव को इरेडा बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया



इरेडा के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास ने नए सरकारी नामित निदेशकगण, श्री अजय यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (बाएं) और श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एफए, एमएनआरई (दाएं) का स्वागत किया

एमएनआरई के दिनांक 7 फरवरी, 2023 के आदेश के अनुसरण में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री पदम लाल नेगी और एमएनआरई के संयुक्त सचिव, श्री अजय यादव को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पदम लाल नेगी, आईडीएस (1992): उन्होंने वर्ष 1992 में रक्षा लेखा विभाग में भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एमएनआरई में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार का पद संभालने से पहले, वे एकीकृत वित्तीय सलाहकार (बीआर), के रूप में दिल्ली कैंट कार्यरत थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अंडमान निकोबार कमांड आदि में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को भी संभाला है।

श्री अजय यादव, आईएस (बीएच: 2005): वे बिहार कैडर के वर्ष 2005 बैच के आईएस अधिकारी हैं। एमएनआरई में संयुक्त सचिव के रूप में पद संभालने के पहले, वे माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपना करियर पटना, बिहार में एक सहायक

कलेक्टर के रूप में शुरू किया था, और बाद में भारत सरकार और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

श्री नेगी और श्री यादव ने इरेडा बोर्ड में क्रमशः श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई, और श्री दिनेश दयानंद जगदाले, संयुक्त सचिव , एमएनआरई का स्थान लिया है।

इरेडा के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास ने बोर्ड में नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि उनके समृद्ध अनुभव और मूल्यवान मार्गदर्शन से इरेडा को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए मदद मिलेगी। हम निश्चित हैं कि कंपनी नए सरकारी नामिती निदेशकों के समर्थन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखना जारी रखेगी।